Form INC - 25A BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT THROUGH THE REGIONAL DIRECTOR. WESTERN REGION (MUMBAI)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS n the matter of the Companies Act, 2013 section 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies Incorporation) Rules, 2014

AND In the matter of M/s BIRLA MANAGEMENT CENTRE SERVICES LIMITED (CIN:U74140MH2001PLC132863) having its Registered Office at C-1, Aditya Birla Centre, S. K. Ahire Marg, Worli, Mumbai 400030

Notice is hereby given to the General Public that the Company BIRLA MANAGEMENT CENTRE SERVICES LIMITED intends to make an application to the Central Government under Section 14 of the Companies Act. 2013 read with Rule 41 of Companies (Incorporation) Rules 2014 and s desirous of converting into a Private Limited Company in terms of the specia resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on April 20,2022 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed conversion may deliver or cause to be delivered or send by the registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of oppositior to the concerned Regional Director, Western Region, Ministry of Corporate Affairs, 100, Everest, Marine Lines, Mumbai 400 002 within 14 days from the date of publication of this notice with a copy of the said letter to the Company at its registered office at the address mentioned below.

For BIRLA MANAGEMENT CENTRE SERVICES LIMITED

Sd/-MANISH GUPTA DIRECTOR DIN:09036009 Date: 28.04.2022

Place : Mumbai Registered Office Address: C-1, Aditva Birla Centre, S. K. Ahire Marg, Worli,

AND
LIVING MEDIA INDIA LIMITED
CIN: U92132DL1962PLC003714
A COMPANY INCORPORATED UNDER THE
COMPANIES ACT, 1956 HAVING ITS
REGISTERED OFFICE AT F-26, FIRST FLOOR,
CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001

If no objection is received within the time stated above, entries in the list of creditors will, in all the proceedings under the above petition to reduce the share capital of the Company, be treated as correct.

correct. It may also be noted that a hearing has been fixed for Monday, 01st day of August 2022 on which the Tribunal shall hear the application. In case any creditor intends to attend the hearing they should make a request along with their objections if any.

INFOBEANS TECHNOLOGIES LIMITED InfoBeans

Quarter ended

Decembe

31, 2021

(Audited)

7,159

7,413

4,361

69

387

734

5.551

1,862

1,862

1,862

286

(16)

(53)

156

1,706

1,706

(5)

(4)

1,701

2.417.10

2,427.70

7.07

7.01

254

March

31, 2022

(Audited)

9,139

335

9,474

5,523

249

920

1.007

7,700

1,774

1,774

1,774

200

16

(112)

(78)

26

1,748

1,748

(117)

(83)

1,666

2.417.10

2,431.50

7.25

7.19

Notes: 1. The above results of the group for the guarter and year ended on March 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee

These financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of

the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules

B. The above consolidated results represent results of Infobeans Technologies Limited and its subsidiaries InfoBeans INC., InfoBeans

Fechnologies DMCC, InfoBeans Technologies Europe GmbH, Eternus Solutions Private Limited have been prepared in accordance

. On 30th November 2021, the Company has acquired 100% stake in Eternus Solutions Private Limited for a total consideration of Rs

18,262.00 Lakhs [Including Cash of Rs. 3262 Lakhs] out of which 6,503.93 Lakhs has been paid and deferred consideration of 11,758.07

akhs is payable as per the terms and conditions of the Share Purchase Agreement entered between the Company and Sellers. Post

completion of the aforesaid acquisition, Eternus Solutions Private Limited has become wholly-owned subsidiary of the Company. The

air value of assets and liabilities acquired have been determined provisionally and accounted in accordance with IND AS 103 -

5. The Group operates in one segment i.e. Information Technology services. Hence no separate segment disclosures as per "Ind AS-

During the Quarter, Company has merged stepdown subsidiary Philosophie Group, Inc into Company's wholly owned subsidiary

nfoBeans, Inc. The assets and liabilities acquired have been determined provisionally and accounted in accordance with IND AS 103 \cdot

CIN - L72200MP2011PLC025622

Registered Office -Crystal IT Park, STP-I 2nd Floor, Ring Road, Indore (M.P.)

Website: www.infobeans.com, Email: investor.relations@infobeans.com, Contact No.: 0731 - 7162000, 2102

Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and year ended on 31st March 2022 in

compliance with Indian Accounting Standards

NOTICE is hereb	y given that the be	elow mentioned Sub Broker / .	Authorised Person is no longer a
as Sub Broker / A	uthorised Person o	of Kotak Securities Limited.	
Sub Broker/ Authorised Person Name	Trade Name	Exchange Registration Numbers of Sub Broker / Authorised Person	Address of Sub Broker Authorised Person
Dixit	Dixit	NSE - AP0291115161	A 601 Rustomjee Residency Ja
Bipinchandra	Bipinchandra		Sawant Road, Rustomjee Sc

ease note that above mention Sub Broker (SB)/Authorised Person (AP) is no longer associated with us

kotak Securities Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PLC134051, Telephon o.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.con Correspondence Address: Infinity IT Park, Bidg. No 21, Opp. Film City Road, A K Valdya Marg, Mala East), Mumbai 400097. Telephone No: 42856825. SEBI Registration No: INZ000200137 (Member I SE, NSE, MSE, MCX & NCDEX), AMFI ARN 0164, PMS INP000000258, and Research Analy: NH000000586. NSDL/CDSL: IN-DP-NSDL-23-97.

(Refer Notes Below)

Revenue from Operations

a) Employee Benefits Expense

b) Decrease in Technical Development WIF

c) Depreciation and Amortization Expenses

Profit before exceptional and extraordinary item

Profit before extraordinary item and tax(V-VI)

Profit/(Loss) for the period from continuing

Profit/(Loss) from discontinuing operations

Profit/(Loss) from discontinuing operations

Items that will not be reclassified to profit or loss

Remeasurement of the defined benefit liability/assets, net

Income tax relating to items that will not be reclassified

*Earning per share is not annualised for the interim period

and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 27th April, 2022.

108 : Operating Segments" have been presented as such information is available in the statement.

Tax expenses of discontinuing operations

Profit/(Loss) for the period(XI+XIV)

Total Other Comprehensive Income

Paid Up Equity Share Capital

(Face value : Rs.10 per share)

Equity Shares of par value ₹10/- each

vith Ind AS 110 – "Consolidated Financial Statement"

Total Comprehensive Income for the year

Other Comprehensive Income/(Losses)

Total Revenue(I+II)

b) Finance Costs

d) Other Expenses

Total Expenses

and tax(III-IV)

Extraordinary Item

Tax Expense

Current Tax

Current Tax

Deferred Tax

MAT Entitlement

Total Tax Expenses

operations(IX-X)

(after tax)(XII-XIII)

to profit or loss

Earning Per Share

(1) Basic (₹)

nttps://www.nseindia.com.

Place: Indore

Dated: April 27, 2022

(2) Diluted (₹)

Profit Before Tax (VII-VIII)

Tax in respect of Earlier Year

VIII

XIV

X۷

XVI

XVIII

XIX

Other Income

Expenses

SICOM

SICOM LIMITED Solitaire Corporate Park, Building No.4, 6th Floor, Guru Hargovindji Road Chakala, Andheri(East), Mumbai- 400 093 Tel: 022-66572700 Website: www.sicomindia.com

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

FOR SALE OF FINANCIAL ASSETS (NON PERFORMING ASSETS) OF SICOM LIMITED SICOM Limited (SICOM), invites Expressions of Interest ("EOI") from ARCs/ Banks/ FIs and leligible NBFCs for the sale of its Financial Assets ("Non-Performing Assets") as per the extan RBI Guidelines under Swiss Challenge Method. Eligible Interested Applicants may download the Bid Document alongwith the List of NPA Assets available for Sale from the website of SICOM Limited (www.sicomindia.com). The Bid Document can also be obtained by sending an email to Officers as given below

Please note that the Non-Performing Assets is being sold as pool of assets or individual loan account(s). Each prospective transferee shall be required to submit an Expression of Interes ("EOI") along signed copy of bid document and Non-Disclosure Agreement ("NDA") to initiate the

The sale of financial assets (Non Performing Assets) is, only on, Unfront Cash basis, and on "As is where is, as is what is, whatever there is and without recourse basis".

interested applicants shall submit the Expression of Interest ("EOI") on or before 5:00 PM on 9 May, 2022 in either a sealed envelope to SICOM LIMITED at its regi

e-mail to:						
Mr. Rajendra Bhosale	M-98335 46349	rbhosale@sicomindia.com				
Mrs. Disha Marathe	022 6657 2766	sware@sicomindia.com				
Mrs. Rasika Sawant	022 6657 2750	rsawant@sicomindia.com				

SICOM reserves the right to alter, modify the terms and conditions of the said sale or to cancel/postpone the proposed auction sale / alter / add / delete any account(s) offered for sale a variety pospore in proposed actions and rate in duct prefere any accounting officer for sale at any stage of transaction, change/extend the time-lines outlined in this Bid document without assigning any reason thereof whatsoever. The decision of SICOM Ltd in this regard shall be final, pinding and conclusive. Please note that the sale shall be subject to final approval by the Competent Authority of SICOM Ltd .

Date - April 29, 2022 Place - Mumbai

Authorised Signatory

NOTICE

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public that my client Mrs. Vandana Vidvanath Kapoor wife of late Mr Vidyanath Kapoor wants to sell her property at Tenement/ Flat No.10/38 Goregaon Yeshwant Nagar co operative Housing Society Limited Yeshwant Nagar, Near Apna Bazza Shopping centre No. 1, Goregoan West Mumbai- 400104 lying and situated at CTS No. 24 admeasuring area 110 square meter and holding title and original share certificate No. 138 with all original documents. If any one has any objection, interest claim or any rights can informed to the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice in vriting with documentary evidence failing which all such claims objections raised after the expiry of the said period shall not be entertained and such claims, rights objections will be treated as null and void and my client will proceed for registration of sale agreement.

AMITS, PARADKAR

ADVOCATE HIGH COURT

PRITISH NANDY TO

NOTICE

Notice is hereby given, in terms of Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, May 6, 2022, at the registered office of the Company inter-alia, to consider, approve and adopt the annual audited financial results (standalone and consolidated) for the quarter and year ended March 31, 2022. The Company has already closed its "Trading

Window" under the Company's Insider Trading Code from April 1, 2022 and it will open after the end of 48 hours after the results are public from May 9, 2022. The same notice may be accessed on the

company's website on www.pritishnandycom com and also on Stock exchange website www.bseindia.com and www.nseindia.com

By order of the Board For Pritish Nandy Communications Ltd

ublic at large is hereby informed that m

lient has misplaced the following Origina locuments in respect of Flat No. C/213

econd floor, Radha Kunj CHS Ltd., Ve

avarkar Nagar, Navghar, Vasai Road

W), Tal. Vasai, Dist. Palghar 401 202

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the notice of Genera Public that the Land bearing CTS No 1078/B admeasuring 341.10 sq. meters in the revenue village Malonde, Taluka Vasai, District Palghar is owned and possessed by Ashraf Ahmed Godambe and Farhan Kadir Shaikh. My clients M/s. Bassein Developers have executed and registered a Re-Development Agreement vith the owner (land owners) and are pursuing compliance of the said Re-Development Agreement regarding development permissions / construction and have instructed me to issue pape notice on their behalf for any claim and notice on their benair for any claim and objection in respect of the title of the said land and accordingly I have published the said paper notice. Hence if any person institute/firm/company is having any objection in respect of the said lands. shall submit his/her/their objection in vriting to the below mentioned address writing to the below mentioned address within 15 days from publication of this Public notice failing which we shall hold hat there is no claim of any type and if any such rights or claims exist are deemed to nave been waived and no objection shal considered. Please note

Advocate Anish Kalvert. A-G/2, Dewan Niketan CHSL, Diwanman /asai (W), Dist. Palghar Dt. 29.04.2022

SMIFS CAPITAL MARKETS LIMITED Regd Office: 'Vailbau' 4F, 4, Lee Road, Kolkata – 700 020 CIN NO: L74300WB1983PLC036342 Tel No. 033-2290-7400/ 7401/7402/0544 Fax No. 033-2287-4042 2240-6884 smifcap@gmail.com, cs.smifs@gr Website: www.smifscap.com

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that th Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, May 11 2022, at the registered office of the Company a 11:30 A.M. inter-alia, to approve the Audited Financial Results for the quarter and Financia year ended 31st March, 2022.

Further the said notice would also be available on the website of the Company viz., www.smifscap.com and on the website of the BSE Limited viz., www.bseindia.com where the

Shares of the Company are Listed. By Order of the Board For SMIFS Capital Markets Limited

(Poonam Rhatia) Place: Kolkata Company Secretary-cum Date: 29.04.2022 - Senior Manager Legal

B-37, ROLLEX Shopping Centre, Opp. Registration office Goregaon Station Road, Goregaon West Mumbai - 400104.

(Rs. In Lakhs except per share Data)

March

31, 2022

(Audited)

27,141

1,757

28,898

17,299

461

2.027

3.094

22.881

6,016

6.016

6,016

753

(206)

328

5,689

5,689

(95)

5.594

2.417.10

2.431.50

23.58

23.38

March

31, 2021

(Audited)

4,691

390

5,081

3,149

80

489

577

786

721

721

(17)

11

(305)

(282)

1,003

1,003

(3)

1,001

2.401.56

2.431.50

4.18

4.12

4,295

Year ended

March

31, 2021

(Audited)

18,034

1,595

19,630

11,706

322

1,612

2,419

16,059

3,571

3,506

3,506

(17)

(90)

(714)

(178)

3,684

3,684

(23)

(16)

3,668

2.401.56

2,431.50

15.34

15.15

PUBLIC NOTICE

Due to sad demise of Mr. Sanjiv Digambar Deshpande, owner of Office No. 1201, Damji Shamji Business Galleria, L.B.S Marg Kanjurmarg West, Mumbai 400078 holding Share Certificate no. 76 issued on dated 20th July 2018. His wife Mrs. Sonal Sanjiv Deshpande has approached this society for transfer of his Share Certificate in the name of Mrs. Sonal Sanjiv Deshpande. Society will make necessary transfer of share certificate if no claim or obiection is received within 30 days from date of this notice.

Sd/ Secretary

Damji Shamji Business Galleria C. C. P. S. Ltd.

E-TENDER NOTICE

Purchase of Single Super Phosphate Powder (S.S.P.) The MAIDC Ltd. Invites proposal from Manufacturer / Importer / Traders to Supply Single Super Phosphate Powder (SSP) to Fertilizer Factories.

For the detailed tender documents nterested bidder should visit http:// n www.maidcmumbai.com Tender submission would be online and the deadline to submit the proposals is dated 09.05.2022 at 14.00 PM.

> (Babasaheb Pardhe) General Manager (Fert & Admn.

PUBLIC NOTICE

This is to inform/notice you that mv Client **JAYENDRA** DATTARAM PARKAR have wish to get the below mentioned premises transferred from GANPAYYA NARSAYYA

So if any person/s, bank society or company have any claim, right, objection in respect of the below mentioned premises then submit it at my below address within 14 days from this notice, failing which, any claim/s, shall be considered as waived off/ abandoned/ given up or surrendered

Description of the Property Shop No. K/6, Dainik Shivneri Marg, Gandhi Nagar, Worli, Mumbai- 400 013.

Date- 29/04/2022

ADV. SUSHIL DALVI 3/3, Nehru Nagar, G. K. Marg Worli, Mumbai- 400 013

Public at large is hereby informed that M and bearing S No 30/2, 29/1, 37/1, 2, 30/1 73 (pt), 74 (pt), CTS no 1809, 1816, 1811 t Kopri Colony, Thane (E), The said Mrs he said Owner - Mr. Ashok M. Seth is roposing to deal in respect of the said flat he said Owner has lost / misplaced the

) Original Agreement / Allotment letter o r. Nand D. Chhabria

Original Agreement dt 26/06/1982 b/w Mi

interest of any nature whatsoever in regard the abovesaid property shall write to t ntertained and it would be deemed that no

V. T. Hundlar Advocate High Court 101 May Fair Bldg. Edulji Road Charai, Thane - (W) - 400601



Business Standard newspaper delivering safely to homes and offices

For details, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard

Insight Out

f bsindia 💟 bsindia

business-standard.com

INDO RAMA

Synthetics (India) Limited

Registered Office: A-31, MIDC Industrial Area, Butibori - 441122, District Nagpur, Maharashtra.
Corporate Office: 20th Floor, DLF Square, DLF City Phase II, Gurugram - 122002, Haryana.
Tel.: 07104-663000 / 01 Fax: 07104-663200, Email: investor-relations@indorama-ind.com, Website: www.indoramaindia.com CIN: L17124MH1986PLC166615

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Standalone Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Year Ended **Particulars** March 31, March 31, March 31, March 31, March 31, March 31, December March 31, December March 31, 2022 2022 31, 2021 2021 2022 2022 31, 2021 2021 2021 (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Unaudited (Audited) (Audited) 1.200.43 1,061.32 821.89 3.907.42 2.043.59 1.252.44 1,102.47 835.93 4.044.41 2,063.71 Total Income from Operations Net Profit for the period (before tax and exceptional items) 107.10 70.39 85.07 218.11 14.36 107.17 70.53 85.58 219.44 15.02 Net Profit for the period before tax (after exceptional items) 107.10 2.73 107.17 70.53 219.44 70.39 85.07 218.11 85.58 3.39 128.20 107.10 268.19 112.78 107.13 95.40 128.65 269.06 113.38 Net Profit for the period after tax (after exceptional items 95.40 Total comprehensive income for the period (comprising 106.14 94.26 128.79 266.09 110.64 106.17 94.26 129.24 266.96 111.24 profit/(loss)) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) Paid-up Equity Share Capital (Face value per share: ₹ 10/-261.11 261.11 261.11 261.11 261.11 261.11 261.11 261.11 261.11 261.11 Other Equity 338.07 339.10 71.98 72.14 Earnings per share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised) 4.10 3.65 4.91 10.27 4.32 4.10 3.65 4.93 10.30 4.34 (a) Basis (in ₹) 3.65 4.10 3.65 4.91 10.27 4.32 4.10 4.93 10.30 4.34 (b) Diluted (in ₹)

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, viz: www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on

- P The above results, which are published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015, as modified by Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5 July, 2016 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved the Board of Directors of the Company, at their respective meeting held on 28 April, 2022. The financial results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued hereunder and the other accounting principles generally accepted in India. Figures for the guarter ended 31 March 2022 and 31 March 2021 as reported in these financial results are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the respective financial year. Also, the figures upto the end of the third quarter were only reviewed and not subjected to audit.
- 3. Indorama Ventures Yarns Private Limited, a wholly owned subsidiary of the Company, incorporated on 5 July 2021 is yet to commence operations. The Company had subscribed towards
- its share capital ₹1.00 Crore on 3 September 2021 and ₹2.00 Crores on 30 March 2022 4. Figures for the previous periods have been regrouped and/or rearranged and/or reclassified wherever necessary to make them comparable with those of current periods.

For and on Behalf of Board Indo Rama Synthetics (India) Limited

8. The above results are available on companies website - https://www.infobeans.com/investors and the stock exchange viz For and on Behalf of Board of Directors of InfoBeans Technologies Ltd

Avinash Sethi Director & Chief Financial Officer

the Company's website, viz: www.indoramaindia.com.

Place: Gurugram Date: April 28, 2022 Chairman and Managing Director (DIN: 00206807)



'. Previous year figures have been regrouped/rearranged wherever necessary







FORMNO.RSC-4

[Pursuant to Rule 3(3) of NCLT (Procedure for reduction of share capital of Company) Rules, 2016]
Before The National Company Law Tribunal,
New Delhi Bench
Company Application No. 69/ND/2022
Living Media India Limited
.....Applicant Company
In the matter of:
SECTION 66 READ WITH SECTION 52 OF THE
COMPANIES ACT, 2013 AND RULE 2 OF THE
NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
(PROCEDURE FOR REDUCTION OF SHARE
CAPITAL OF COMPANY) RULES, 2016
AND
In the matter of:

REGISTERED OFFICE AT F-26, FIRST FLOOR, CONNAUGHT PLACE, NEW DELH-110001

PUBLICATION OF NOTICE

Notice may be taken that an application was presented to the Tribunal at New Delhi Bench, on 22nd Day of April 2022 for confirming the reduction of the share capital of the above Company by way of writing off the accumulated losses up to Rs. 390.88 Crores (Rupees Three Hundred Ninety Crore and Eighty-Eight Lacs) with the securities premium account amounting to Rs. 357.82 Crores (Rupees Three Hundred Fifty-Seven Crore and Eighty-Two Lacs) and the balance amount of accumulated losses as on date on which the order approving the petition/application is passed, against General Reserves of the Company.

The notices to individual creditors have been issued. The list of creditors prepared on the 31nd day of March 2022 by the Company at F-26, First Floor, Connaught Place, New Delhi-110001 for inspection on all working days except Saturdays, Sundays and National Holidays during 11 AM to 4 PM.

If any creditor of the Company has any objection

I11 AM to 4 PM.

If any creditor of the Company has any objection to the application or the details in the list of creditors, the same may be sent (alongwith supporting documents) and details about his name and address and the name and address of his Authorised Representative, if any, to the undersigned at F-26, First Floor, Connaught Place, New Delhi-110001 within there months of date of this notice.

For Living Media India Limited Sd/-22 Ashish Sabharwal hi Company Secretary Membership Number: F4991

Mumbai 400030 PUBLIC NOTICE

Sawant Road Rustomiee Schoo BSE - AP01067301123680 Dahisar West Mumbai 400068

riease note that above mention Sub Broker (SB)/Authorised Person (AP) is no longer associated with us Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions fill date, Investor are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AP.

Cotak Kotak** Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurlis Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PI C134061. Talaphove.

(V), rai. Vasai, bist raighaf 40 202 i Original Agreement for Sale dt. 29/09/1994 between Mr. Pandurang Yeshwant Kulkarni & Mrs. Shobha andurang Kulkarni And Mrs. Ratna egde 2. Original Share Certificate earing no. 43, having distinctive numbers om 211 to 215 in respect of the said flat case the same is found it should be eturned to my client or to us forthwith.
is also informed that the owner of the
bovesaid flat Mr. KESHAV NARAYAN PUTHRAN expired on 16/07/2010. And after his death the society intends to transfer the said flat in the name of his wife mt. USHAK. PUTHRAN. case any person has any rights, claims nd interest in respect of transfer foresaid property, or otherwise, the same

hould be known in writing to me at the ddress mentioned below with the locumentary proof within 14 days fronger date of publication hereof, failir hich it shall be construed that such clain waived, abandoned & the said flat shall e transferred in the name of Smt. USHA PUTHRAN. Advocate Parag J. Pimple

6/4, Pravin Palace, Pt. Dindayal Nagar /asai Road (W), Tal. Vasai, Dist. Palghar Mob: 9890079352 Date: 29/04/2022

PUBLIC NOTICE

Ashok M. Seth alongwith Mrs Usharani Seth were the absolute owners of Flat No 124, 2nd Floor, Bldg No. 9, in Daulat Nagar Co-operative Housing Society Ltd on Jsharani A. Seth expired on 22/12/2008 ollowing Original documents pertaining to

he abovesaid flat / property:

Nand D. Chhabria - Transferor and Mr.

Vidyadhar Varma. c) Any other previous chain of documents itle deeds If any person has any claim right title of

undersigned within 14 days from the date of publication of this notice hereof, where afte o claims or objections would be other person or legal heir/s is interested in he abovesaid property of the said

Place: Thane Dt: 29/04/2022

महानगर



बाइक सवार बदमाशों ने महिला से चेन लूटी

इंदौर। जूनी इंदौर इलाके में सुररे बदमाशों ने एक महिला को निसाना बनाते हुए उसकी चेन लूट ली। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी रेन्, तिवारी निवासी बैरादी कॉलोनी है। वह बीती रात खातीवाला टैंक के नजदीक महाकाल चौराहे के पास से गजर शत खावाताला टक कार्यक्र महारक्ष पासर के पास से गुज़र रही बी, तवी मोटरसाइकिल पर आए वे बदानारी ने इपड़ा मारकर उनके मले से वेन इपट ली। पुलिस इलाके के सीसीटीवी पुरेज खांनाल रही है। गौरतलब है कि जुनी इंदौर शहर का ऐसा इलाका है जहां अधार केन लूट की वास्त्रते होती है।

जीएनटी मार्केट के तीन पीटे में लगी आग

इंदौर । शहर में बीती रात दो अलग-अलग जगह अगिन कांड हए। ह लकडी पीठे में भीषण आग लगी। एक पीठे की आ ने दो और पीटों को अपनी चपेट में ले लिया था । वही एक निजी अस्पताल के पास ५ झोपडियां आग की चपेट में आ गई । दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जीएनटी मार्केट में आग की शुरुआत सुरेश शर्मा के पीठे से हुई थी । आग की चजह तो साफ बुर जो पुरंत दाना कर किया है है किया वह किया और महाने चोट में आ गए। देखते ही देखते इस आग ने पास ही में जब पटवानी और अब्दुल युसूफ के पीठे को भी वर्षट में से लिया था। एक नगह कायूटर भी जले हैं। बाकी तीनों जगह हर लकड़िया और मधीने आग की भेंट चढ़ गए आग बुझाने में 10000 लीटर पानी लगा है वही चेदाता हॉसियटल के नजदीक झोपड़ियों में आग लगी वी यह सबसे पहले मीराबाई के झोपड़े में आग लगी इस आग ने पास ही स्थित चार और जोपड़ों को भी चपेट में ले लिया गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है।

शादी के घर को बनाया निशाना

डंदौर। डंदौर में डीजीपी तीन दिन के दौरे पर हैं। इस बीच शहर . चोरों ने तीन थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जबकि डीजीपी के शहर में आने के पहले ट्रैफिक से लेकर हर व्यवस्था के लिए अफसरों ने बल को चाक चौबंद रखा था। पुलिस ने तीनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पहला मामला एम,आईजी इलाके का है। यहां चीरों ने विकास नगर में रहने वाले शंकर गौसर के यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर यहा से दो सोने के मंगलसूत्र,सोने की अंगुटी,चेन व चांदी के जेवर और करीब 25 हजार के लगमग नकदी चुराकर ले गए। शंकर के मुताबिक उनके परिचार में शादी थी। रसोई का काम चल रहा था। इस बीच हलवाई के साथ अन्य लोगों का भी घर में आना-जान लगा था। तभी मौके का फायदा उठ़ाकर किसी ने उनके घर में वारदात को अंजाम दिया। द्वारकापरी में चोरों ने राजेश परमार के ठान को निशाना बनाया। विदुर नगर में उनके घर का ताल तोडकर बदमाश सोने का हार.एक अंगठी दो मंगलसत्र.एक जोड झुमकी,एक जोड टाप्स व वादी की वे जोड पायल,वार जोड बिलुडी, एक जोड कडे, व नगदी करीब दो लाख रुपए चुराकर फरार हो गाए। तारतात के समय परिवार घर में ही सो रहा था

इनामी कॉलेज संचालक को कोर्ट ने नहीं दी राहत

डंटौर। बच्चों की स्कॉलरशिप घोटाले में फरार डनामी कॉलेन संचालक ने कोर्ट से अविम जमानत लेने की कोशिश की उसने कई तिकड़म् भी लगाई लेकिन उसकी एक नहीं बल पाई । दरअसल देवी अहिल्या कॉलेज के मालिक अनय पिता मदनलाल हार्डिया के खिलाफ पिछले दिनों छात्र छात्राओं ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी ने उनके साथ स्कॉलरशिप के नाम पर घोखाघड़ी की है। अजय के साथ दो और भी मलजिम बने थे । जिन्हें न्यायालय से राहत मिल चुकी है । इधर अजय ने समानांतरता के आधार पर जमानत लेने की कोशिश की थी । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीय संजय गुप्ता की कोर्ट में सीनियर एडवोकेट रविद खबड़ा ने मामले की पैरवी की, उन्होंने न्यायालय को बताया कि अजय पर इसी तरह का मामला संयोगितागंज थाने में भी दर्ज़ है । उसी तरह का प्रकरण भवर को पुलिस ने दर्ज कर दिया जो गलत है । उन्होंने भाजपा के एक कहावर नेता के दबाव में कार्रवाई होने के बाद कही बी। इधर अजय की जुनानत का विशेष वरिक्त अधिवक्त संजय जैन और सुरज उपाध्याय ने किया । उन्होंने मंजू नामक लड़की की तरफ से जमानत में आपत्ति ली थी । विद्वान अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को बताया कि आरोपी अजय आदतन अपराधी है।

नकली एडवायजरी कंपनी से की करोड़ों की सपत्ति जब

एडवायजरी माफिया पूजा थापा के आत्म समर्पण के बाद पूछताछ में लाखो रूपए, ज्वेलरी बरामद

नगर प्रतिनिधि

इंदौर। इन्दौर शहर ऑनलाईन फ्रांड, फर्जी एडवाईजरी कंपनी संचालित कर दोगुना मुनाफा का लालच देकर निवेश कराकर लोगो से धोखाधडी करनें वालें आरोपियों पर पुलिस थाना राऊ द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। एडवायजरी फर्म को संचालित करने वाले चारो सरगना पूजा थापा, पवन तिवारी, प्रकाश भट्ट, विशाल जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है।

इसी_कड़ी में मुख्य सरगना पुजा थापा उर्फ आशी उर्फ शैफाली पिता तिल बहादुर थापा उम्र 33 साल निवासी विकास नगर देवास हाल 310 शेखर प्लेनेट्स थाना विजय नगर जिला इन्दौर ने कल को कोर्ट में सरेण्डर किया था। जिसका न्यायालय से पुलिस थाना राऊ द्वारा पीआर लिया गया था, मुख्य सरगना पूजा उर्फ आशी उर्फ शैलाफी बागर का मेमोरेण्डम तैयार किया गया जिसने अपने तयार किया गया जिसन अपन मेमोरेण्डम में बताया कि उसके द्वारा 13,000 स्केयर फिट का फार्म हाउस पाताल पानी महू मे, ओमेक्सी सिटी देवास बायपास पर 1000 स्केयर फिट का प्लाट, नगदी, 07 लाख 15 हजार रुपये. एक महेन्द्र कंपनी की

एडवाईजरी कंपनी के पैसों से खरीर्द गई थी। पूजा थापा द्वारा एयु बैंक में लाकर ले रखा था जिसे पुलिस द्वारा चैक करने पर सोने के हार, सोने के मंगलसूत्र, सोने के कंगन, कान के टाप्स एवं अन्य सोने की ज्वैलरी लाकर में छुपा रखी थी जिसे पूजा

थापा से जप्त की गई। मुख्य आरोपिया पूजा थाना उर्फ आशी उर्फ शैफाली बागर द्वारा मौज मस्ती के लिए अपनी फर्जी एडवाईजरी कंपनी के आरोपी पवन तिवारी विशाल जयसवाल एवं प्रकाश भद द्वारा पाताल पानी महू में एक 13,000 स्केयर फिट का फार्म हाउस बना कर रखा है जहां पर फर्जी एडवाईजरी कंपनी के सदस्य मौज मस्ती के लिए आते थे। प्रकरण की विवेचना के दौरान अब तक उक्त आरोपियों के

नगदी, 25 एनडाईड मोबाईल 10 लेपटाप, 04 गाडिया, प्लाट, फ्लेट्स, लगभग 10 लाख रुपये ज्वेलरी इम्पोटेड घडिया. 50 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड जप्त किये गये तथा इनके खातो से लगभग 05 करोड का ट्रांजेक्शन होना पाया गया। उक्त आरोपी अपनी लाईफ स्टाईल लग्जरी तरीके से जीते थे लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति जप्त की गई है एवं 24 खाते को फ्रीज कराये गये है जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। उक्त एडवाईजरी कंपनी पर पुलिस थाना राऊ द्वारा कार्यवाही करने पर सौरभ कुमार मिश्रा 19 वी आसाम रायफल अ कम्पनी द्वारा असम से बेंगलुरु से वोणी गोपाल् अप्पा, अरसद आलम ने बेंगलुरू से एवं असफ ने सिकन्दरा तेलंगना से

कार के आगे लगाना चाहती है बाहुबली के भल्लाल देव के रथ जैसा चक्र

इंदौर। इंदौर के बेतरतीब टैफिक से एव नौकरीपेशा पेग्नेंट लेडी परेशान है। इस नेडी ने पुलिस-प्रशासन के सामन अपनी अंजब-गजब डिमांड रखी है। इस पेततेंट लेडी ते डंटीर

कमिश्नर,कलेवटर और ट्रैफिक एसपी को अपनी कार में मॉडिफिकेशन कराने और बाहुबली फिल्म के मल्लाट देव की तर्ज पर कार के आगे चक्र लगाने की अनुमति देने के लिए आवेदन दिया है। महिला ने आवेदन में लिखा है कि मैं कनुप्रिया सत्तन, इंदौर के एयरपोर्ट क्षेत्र में रहती हूं। अपने घर से ऑफिस नाने के लिए लिए मैं अपनी कार का इस्तेमाल करती हूं। मैं अपनी कार में एक मॉडिफिकेशन करवाने के लिए आपसे अनुमति चाहती हूं। मेरी कार का नंबर एमपी ०९सीएवस ३८९९ है। मैं बाहुबली-१ के मल्लाल देव के रय की तर्ज पर अपनी गाड़ी में चक्र लगवाना चाहती हूं और गाड़ी में 2 बडे हेलोजन की तरह लाईट भी। महोदय में आठ माह गर्भवती हूं और जिसके चलते में कई बार महसुस करती हूं की इदौर की सड़कों पर गाड़ी चलाना या उसमे बैठना भी सुरक्षित नहीं है।

इंदौर। इंदौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से धर्मेन्द्र कसेरा कोरोना काल के बाद से बेरोजगार बैठा हुआ था। इसलिए उसे घर से 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में साइबर पुलिस दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक आरोपी को ट्रॉजिट रिमांड पर इंदौर लेकर आई है। आरोपी और उसकी गैंग

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से

24 लाख रुपए टगे

तिहाड जेल से एक आरोपी को टांजिट रिमांड पर इंदौर आई पुलिस

के साथियों ने नेहरू नगर इलाके में रहने वाले युवक के साथ गंभीर बीमारियों में काम आने वाले हर्बल तेल के नाम पर ठगी की। गैंग का एक सदस्य नाइजीरियन मूल का है, जो तिहाड़ में बंद है। साइबर एसपी जितेंद्र सिंह के मुताबिक16 जून 2021 को नेहरू नगर में रहने वाले साफ्टवेयर इंजीनियर के पास

दिल्ली की रोहित एन्टरपाइजेज से फोन ादल्ला की साहत एन्टरप्राइजज स फीन आता है। आरोपी सोनू पिता वीर सिंह नागर निवासी गीतम बुध्द नगर द्वारा युवक को बताया गया कि उसकी फर्म उद्दश्ट्व ए७३१३ नामक एक ऑइल बेचती है। जिसका इस्तेमाल कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों की दवा बनाने में होता है।

ही यह व्यापार करना सही लगा। तगों ने उसे बातों में उलझा कर डेढ़ लाख रुपए प्रति लीटर की दर से 30 हजार लीटर ऑइल का सौदा किया और अपने खातों में एडवांस के तौर पर 24 लाख रुपए जमा करा लिए। इसके बाद से आरोपी ने फोन बंद कर दिया। जिसके बाद फरियादी ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी।

साइबर पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा देश के कई राज्यों में इसी प्रकार से लोगों को उगा गया है। आरोपी कोरोना काल में देश भर में मैसेज भेजते थे। जो व्यक्ति उन्हें फोन लगा लेता, उन्हें झांसे में फंसा लेते थे। गिरोह में सभी का काम अलग-अलग होता था। जिसमें खाता खोलने से लेकर ठगी के रुपयों को किस बैंक खाते से जमा करना है तक शामिल होता था। आरोपियों द्वारा अब तक 50 लाख की

शादी के मंडप में बुजुर्ग की हत्या

इंदौर। साडू भाई की बेटियों की शादी में आए बाटवा का शादा म आए एक बुजुर्ग की शादी के मंडप में हत्या कर दी गई। फिलहाल परिवार वाले विवाद और हत्या करने वालों के बारे में बताने से बच रहे हैं। मामला खुडैल थाना क्षेत्र के दूधिया गांव का है। दूधिया में रहने वाले महेश की बच्चियों का आज लगन है। उनके यहां उनके साद् भाई मंशाराम पिता बुक्कन उर्फ नत्थू निवासी मंडलेश्वर चोली शादी में शामिल होने के लिए आए थे। रात करीब 1 बजे मंशाराम की शादी के मंडप में ही

जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । किस विवाद में और किसने मंशाराम में और किसन मशाराम को चाकू मारे पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। शादी के मंडप में मंशाराम की हत्या के मामले में

मंशाराम की हत्या के मामले में पुलिस को भोला, राजा और चीना की तलाश है। दरअसल महेश की एक बच्ची का जहां रिश्त हुआ है उन्हीं का रिश्तेदार भोला है। रात को मामेरा हो रहा था। बोला महिलाओं के बीच बार-बार जा रहा था। मंशाराम ने इस बात पर आपत्ति ली थी। इसी को के चलते भोला अपने साथियों को लेकर आया और मंशाराम को मौत के घाट उतार दिया।

होटल में मारपीट-तोड़फोड़

गाली गलौज की थी । वही होटल संचालक सिराज का आरोप है कि आरोपियों ने बेवजह विवाद करते हुए उसकी होटल में तोड़फोड़ की है।

रेल यात्रियों के लिए खुश खबर

महू से इंदौर डेमू ट्रेन के दो फेरे

महू से नई दिल्ली सप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रारम्भ होगी

अशोक दीक्षित

महू। महू डॉक्टर अम्बेडकर नगर पश्चिम रेल्वे रतलाम मंडल ने नगर पांक्षम रत्य रतलाम मडल न घोषणा की है शुक्रवार 29 अप्रैल से डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से नई दिल्ली जून महीने तक स्पेशल ट्रेन के 12 फेरे चलाने का एवं डॉक्टर अंबेडकर नगर से इंदौर तक के लिए डेमू ट्रेन के दो फेरे बढ़ाये जायेगे। ट्रेन का समय इस प्रकार रहेगा सप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हर शुक्रवार शाम 4:00 बजे डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू से नई दिल्ली एव डेमू ट्रेन प्रतिदिन 2 फेरे बढाए गए है। प्रातः 10.45 बजे एवम दूसरी रात 9 बजे महू से इंदौर के लिए रवाना होगी इससे डेली अप डाउन करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा इंदौर महू के आमजन को इंदौर जाने का अच्छा साधन उपलब्ध होगा एवं महू से नई दिल्ली की सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी इससे आमजन के साथ सैन्य कर्मियों को

जानवान के साथ सन्य कानवा का बहुत लाभ मिलेगा। आपको बता दें डेमू ट्रेन के लिए शहर की सामाजिक आइंडियल लाइफ क्लब के नेतृत्व में शहर की 15 सामाजिक संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही थी । पश्चिम रेलवे मंडल के अधिकारियों को लगातार जापन देते थे एवं ई-मेल के द्वारा जन समस्या निराकरण का प्रयास कर रही थी एव दैनिक चौथा संसार निरंतर अप डाउन करने वाले यात्रियों की समस्या उठाता रहा है। 15 अप्रैल 22 को फ्रांट पेज

उठाया था डेम् ट्रेन कल से प्रारंभ

हो रही है पर स्पेशल टेन 05941 एवम 05942 स्पेशल ट्रेन होगी नए नंबर से जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट के वर्तमान में पूरे देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी भी कोविड के पूर्व जो डेमो ट्रेन चलती थी वह पूरी तरह से प्रारंभ नहीं हुई है। डॉक्टर अंबेडकर नगर से नागदा जेक्शन ट्रैन प्रमुख ट्रैन है जो महू से शुरू नहीं हुई है जो महू से प्रातः 6.45 को चलकर इंदौर होते हुए नागदा होकर रात्रि 9 पुनः महू आती थी। इस ट्रेन से कोचिंग एवम कॉलेज स्टूडेंट जो महू से प्रातः इंदौर पढ़ाई के लिए जाते थे एवं नौकरी मजदूरी करने वाले यात्रियों को सविधा थी। एडवोकेट अशोक थ्रीवास ने कोर्ट में याचिका लागा



महिला मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न इंदौर । भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैटक २९ अप्रैल को . इंदौर में आयोजित होने जा रही है। जिसका उद्घाटन सत्र सबह 11.00 बजे प्रारंभ होगा। उसी क्रम में गुरुवार को महिला मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई ,महिला मोर्चा मीडिया प्रभारी नेहा बग्गा ने बताया की बैठक को महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रमारी श्रीमती दर्शना सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया उसके पश्चात बैठक को संबोधित किया और कल होने वाली बैठक की रुपरेखा जानी साथ ही महिला मोर्च द्वारा पूर्व में स्वातिल कार्यक्रमों की समीमा पढ़ अज्ञानी कार्यक्रमों को लेकर मुख्य रूप हो मंचाित कार्यक्रमों की समीमा पढ़ अज्ञानी कार्यक्रमों को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गई. बैठक को लेकर नगर अख्यस श्री गोरव रणदिवें जी ने भी तैवारियों का जावजा लिया।

युवती से छेड़छाड़

इदौर। मुसाखेडी सर्विन रोड पर त रात एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। वह सडक पर अकेली खड़ी थी, किसी का इंतजार कर रही थी। तभी आरोपी ने उससे अश्रील हरतात ती। उसने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी भी दी है आजाद नगर प्रलिस के अनसर आरोपी का नाम रोहित गोहर निवासी हरिजन कॉलोनी पलासिया है। पीड़िता मुसाखेड़ी की रहते वाली है। वह रात करीब 11 बजे न्यू इंदिरा एकता नगर सर्विस रोड मूसाखेड़ी पर खड़े होकर किसी का इतजार कर रही थी । उसी दौरान आरोपी वहां से गुजरा । उसने पीड़िता को अकेला देखा तो अश्रील इस्कत करने लग गया। बताया जा रहा है आरोपी को रात में ही पुलिस ने हिरासत तों भी ने निया।

INFOBEANS TECHNOLOGIES LIMITED InfoBeans

CIN - L7200MP2011PL0026622

Registered Office - Crystal T Park, 5712 Jod Florx, Pling Road, Indore (M.P.) infobeans com, Email: investor:relations@infobeans.com, Contact No.: 0731 - 7162000, 2102 (Consolidated Financial Results for the Quarter and year ended on 31st March 2022 in compliance with Indian Accounting Standards

	Particulars	Quarter e	ended		Year	ended
	T ut to utilis	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 202
	(Refer Notes Below)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audite
1	Revenue from Operations	9,139	7.159	4,691	27.141	18.03
ii l	Other Income	335	254	390	1,757	1,5
III	Total Revenue(I+II)	9,474	7,413	5,081	28.898	19,6
	Expenses		.,,			
	a) Employee Benefits Expense	5,523	4.361	3,149	17.299	11,7
	b) Decrease in Technical Development WIP	-,	.,	-,,		
	b) Finance Costs	249	69	80	461	3
	c) Depreciation and Amortization Expenses	920	387	489	2.027	1.6
	d) Other Expenses	1.007	734	577	3.094	2.4
IV	Total Expenses	7,700	5.551	4,295	22.881	16.0
٧	Profit before exceptional and extraordinary item	.,	.,	.,	,	
	and tax(III-IV)	1,774	1.862	786	6.016	3.5
vı	Exceptional Items	.,	.,	64		-,-,-
VII	Profit before extraordinary item and tax(V-VI)	1,774	1.862	721	6.016	3,5
VIII	Extraordinary Item	.,,,,,	1,002		0,010	0,0
IX.	Profit Before Tax (VII-VIII)	1,774	1.862	721	6.016	3.5
X	Tax Expense	.,,,,,	1,000		0,010	0,0
^	Current Tax	200	286	29	753	6-
	Tax in respect of Earlier Year	16	(16)	(17)		(1
	MAT Entitlement	(112)	(53)	11	(206)	(9
	Current Tax	(11.2)	(00)		(200)	(0
	Deferred Tax	(78)	(60)	(305)	(219)	(71
	Total Tax Expenses	26	156	(282)	328	(17
ΧI	Profit/(Loss) for the period from continuing			(===,		(
^1	operations(IX-X)	1,748	1.706	1,003	5.689	3.6
XII	Profit/(Loss) from discontinuing operations	1,740	1,700	1,000	0,000	0,0
XIII	Tax expenses of discontinuing operations					
XIV	Profit/(Loss) from discontinuing operations					
A14	(after tax)(XII-XIII)	_	_	_		
χv	Profit/(Loss) for the period(XI+XIV)	1,748	1.706	1,003	5.689	3,6
XVI	Other Comprehensive Income/(Losses)	1,740	1,700	1,000	3,003	3,0
^*'	Items that will not be reclassified to profit or loss					
	Remeasurement of the defined benefit liability/assets, net	(117)	(5)	(3)	(134)	(2
Inc	Income tax relating to items that will not be reclassified	(117)	(3)	(0)	(104)	(4
	to profit or loss	34	2	1	39	
XVII	Total Other Comprehensive Income	(83)	(4)	(2)	(95)	(1
XVIII	Total Comprehensive Income for the year	1.666	1.701	1.001	5.594	3.6
	Earning Per Share*	1,000	1,701	1,001	0,004	0,0
AIA	Paid Up Equity Share Capital	2.417.10	2.417.10	2.401.56	2.417.10	2.401.5
	r aid op Equity Share Capital	2,431.50	2,427.70	2,431.50	2,431.50	2,431.5
	(Face value : Rs.10 per share)	2,431.30	2,421.10	2,431.30	2,431.30	2,431.
	Other equity					
	Equity Shares of par value ₹10/- each					
	Equity Shares of par Value ₹ 10/- each (1) Basic (₹)	7.25	7.07	4.18	23.58	15.3
	(1) Basic (₹) (2) Diluted (₹)	7.19	7.07	4.18	23.58	15.
	*Earning per share is not annualised for the interim period	7.19	7.01	4.12	23.38	15.
	carning per snare is not annualised for the interim period					

जांच अब एसआइटी करेगी हत्या हो गई। उसके गले पर चाकू के वार थे। दामाद विष्णु उसे अस्पताल लेकर पहुंचा था।

इंडेक्स मेडिकल कालेज के हास्टल में 30 मार्च को चेतन पाटीदार ने कर ली थी आत्महत्या

कार एक्सीडेंट में छात्र की मौत इंदौर। इंदौर के राजेन्द्र नगर इलाके में कार के अनियंत्रित होने से पलटी खा गई। हादसे में कार में सवार

एक छात्र की मौत हो गईं, जबकि उसमें बैठे चार अन्य छात्र घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी दोस्त पार्टी से लौट रहे थे। तभी ढलान पर कार का नियंत्रण खो बैठे। सभी छात्र इटारसी

के रहने वाले हैं। वे इंदीर में पढ़ाई करने आए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना बायपास स्थित सेज यूनिवर्सिटी के पास की है। यहां बुधवार रात हादसे में कार में सवार छात्र सिद्धार्थ पुत्र योगेश सोमेश्वर, मारयो फर्नाडीस, ऋषभ महतो, आवुष मनावरे और जय सोनी घायल हुए थे। बुधवार देर रात उपचार के दौरान सिद्धार्थ की मौत

न न न न हैं है। है है कि सार कि है कि सार कि है है कि सार है है है है कि सार कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि स्व है। यह हित्स के सार तकाल सभी छात्रों की ऐंबुलेंस से भंदरकुं की स्थित मेडिस्वयेस अस्पताल लावा गया। यहां सभी का तत्काल उपचार शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक कार में सबार छात्र मारियों ने अपना लायसेंस रखकर निजी कंपनी से कार किराए पर ली थी। ज़िसे उसका दोस्त चला रहा था। छात्रों ने बताया कि इंटलान

आने पर स्टूडेंट से ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, जिससे कार की स्पीड और बढ़ गई। इस बीच वहीं पर डिवाइडर होने से कार पलट गई।

छात्र की आत्महत्या मामले की

इंदौर । इंडेक्स मेडिकल कालेज के छात्र चेतन पाटीदार की मौत के मामले की जांच अब स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) करेगी। इसके लिए तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है। मामले को लेकर पिछले दिनों परिवार के सदस्यों ने भोपाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि आरोपितों को छोड़ा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि इंडेक्स

मेडिकल कालेज में एमबीबीएस

प्रथम वर्ष के छात्र चेतन पाटीदार ने 30 मार्च को फांसी लगाकर



चेतन को सीनियर छात्रों द्वारा प्रताडित करने की बात सामने आई थी। कहा गया था कि चेतन ने कालेज व हास्टल में रैगिंग से परेशान होकर फांसी लगाई। इसके बाद खुड़ैल थाना पुलिस ने कालेज के डीन जीएस पटेल और

ततीय वर्ष के दो छात्रों रोमिल सिंह व दुर्गेश हाड़ा पर केस दर्ज किया था। मामले में फिलहाल डीन र्स पटेल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अफसरों का कहना साध्य नहीं है।वहीं अब स्वजन की शिकायत के मद्देनजर मामले की जांच के लिए तीन मामल का जाच के लिए तान सदस्यीय एसआइटी का गठन किया है। इसमें एडीसीपी शशिकांत कनकने, एसडीओपी देपालपुर अनिल सिंह चौहान, हातोद टीआइ राजीव त्रिपाठी शामिल हैं। मामले में अन्य आरोपितों के शामिल होने को लेकर भी एसआइटी जांच करेगी।

इंदौर। तुकोगंज इलाके की एक होटल में खाना लेट होने की बात इंदौरा तुकीगंज इलांक की एक होटल में खाना लेट होने की बात ए ऐसा विवाद हुआ कि वहां जमकर मारपीट हुई और होटल में भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचावा गवा है। पुलिस ने मामले में 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार एक प्रकरण फरियादी विकास पिता आशोक बोरासी निवासी गोमा की एक की शिकावान एक ओपि फिटोज उर्फ संजु, दिलीग उर्फ युसूफ, मन्, सैयद और प्रदीप के खिलाफ वहीं दूसरे एक्स से सिराज उर्फ संज्जु पिता सैयद नूर की शिकावत पर आरोपी विकास बोरासो, जाजका बोरासी और दीयक पिता गोस्व के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कज़ी की चाल में होटल रॉयल स्थित है। कल रात विकास वहां खाना खाने गया था। होटल के कर्मचारी का एक अन्य ग्राहक से खाना लेट करने के बाद पर विवाद हो गया था। इसी दौरान आरोपियों ने विकास और उसके साथियों के साथ भी

For and on Behalf of Board of Directors of InfoBeans Technologies Ltd Avinash Sethi Director & Chief Financial Officer DIN:01548292